## ितियां विकास विकास विकास विकास विकास क्षित्र क्षा विकास का क्षा विकास कर का क्रा विकास कर का क्षा विकास कर का क्षा विकास कर कर का क्षा विकास का

•	
A CONTE	
	`
EMBARRASSED	
FUIDHMAN	
CAN !	
E 452	
GUILTY	
,	
E C C	
5 (3)	
HOPEFUL	
_	
	·
E 2	
ANGRY	

## श्रीहरियंति के विकारित

Control of the second	
ر ق ع	
	·
HAPPY	
******	
<b>6</b> 2	
6.60.3	. <del></del>
SAD	
<b>J</b> , 10	
_	
- Koon	/
P CON	
Anxious	
Anxious	
Anxious	
Anxious	